

फर्जी जमीन दिखाकर क्रेता के रुपये हड़पने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 710 /2020 धारा 4 19 / 420 / 406 / 120B भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता आफताब हुसैन पुत्र रफीकुल्लाह निवासी गजौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.11.2015 को वादिनी को जमीन बेचने हेतु फर्जी जमीन दिखाकर 3,00,000 छल कपट से ले लिया गया परन्तु अभी तक जमीन नहीं देने पर वादिनी द्वारा दिनांक 04.12.2020 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 25.12.2020 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10 व 05 लीटर कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त 1- नाम पता लल्लन पुत्र जगनाथ निवासी सिकरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर । 2 – रामसागर पुत्र सिताऊ निवासी छपिया छितौना थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 405 / 2020 व 406 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता जोगिन्दर यादव पुत्र रामसवारे निवासी सुजिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 761 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता साकेत सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी उनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 760 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा विवाद कर रहे लोगों का कराया गया शांत – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 12088 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से दोनों पक्ष के व्यक्ति घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया तथा घायल व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां भेजवाया गया, तथा घटना के संबंध मे थाना दुधारा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 हरिनारायण मिश्र, आ0 विनोद भारती, हो0चा0 मो0 रफीक ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनो से 61500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25-12-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनो से 61500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।